QUICKLY

Oppo names Sumit Walia as VP

New Delhi, July 17 Smartphone brand Oppo announced the appointment of Sumit Walia as Vice-president, Product and Marketing. Walia will focus on the localisation efforts in Product and Marketing at Oppo India, a company statement said, "I am delighted to join the OPPO family, especially when the brand is experiencing such a phenomenal transformation. Focusing on consumer engagement, the aim will be to bring localised insights across product and marketing portfolio to achieve our goal," Walia said. OUR BUREAU

BSNL embarks on austerity drive

BSNL has said austerity measure guidelines have been issued to its circles to reduce costs, Parliament was informed on Wednesday. "Due to fall in revenue, payment of salary of employees and statutory payments are the first priority. Thereafter, bills of contractors, etc., are taken into consideration for payment," Communications Minister Ravi Shankar Prasad said in a written reply to the Lok Sabha. PTI

BT to sell its global HQ for \$260 m

Britain's BT Group said it will sell its global headquarters to a fund managed by European private equity company Orion Capital Managers for £209.6 million (\$260.2 million). The sale of the 300,000-square-foot office, based in central London, includes a 30-month leaseback agreement during which the company will move its headquarters to a new location in the capital, the British telecom giant said. REUTERS

Wipro's Q1 net jumps 12.5% to ₹2,388 cr

Sees revenue growth of up to 2% for July-Sept quarter

OUR BUREAU

Bengaluru, July 17 IT services major Wipro's net profit grew 12.5 per cent on year-on-year basis to ₹2,387.6 crore for the first quarter on the back of robust demand from key financial clients. The company guided for up to 2 per revenue sequential growth for the July-September

The April-June quarter, which was the last for Azim Premji as the company's Executive Chairman as he demits office on July 30 after being at the helm for five decades, saw the IT firm's revenue increasing by 5.3 per cent to ₹14,716.1 crore on yearon-year (y-o-y)basis.

However, on a sequential basis, the net profit dropped 3.8 per cent, while revenues fell 2.4 per cent because of the company's divestment in Workday and Cornerstone on-demand business to the US-based Alight for a cash consideration of up to \$110 million. IT services' operating margin for the

quarter was at 18.4 per cent, an increase of 0.8 per cent y-o-y. The IT services revenue decreased 1.3 per cent to \$2.038 billion on a sequential basis. On y-o-y basis, it grew 4.3 per cent. EPS for the quarter was ₹3.97 per share, an increase of 12.5 per cent y-o-y.

The company said factors like macro uncertainties, softness in manufacturing and healthcare, slowness in BFSI, project deferrals and delay in decision making by clients have been the reason for the growth decline.

For the July-September quarter, Wipro expects its IT services revenue to be in the range of \$2.03 billion to \$2.08 billion which translates to 2 per cent at upper end. HDFC Securities had earlier said it expects the company to guide for 0.5-2 per cent revenue growth in constant currency basis.

On the BSE, Wipro's stocks closed nearly flat at Rs 259.70 compared with the previous day's closing price.

"We had a slower start to the year. We, however, remain focussed on our operations and continue to invest in talent and capabilities for the future,"



Abidali Z Neemuchwala (left), CEO, Wipro, and Saurabh Govil, President and Chief Human Resources Officer, at a press meet in Bengaluru GRN SOMASHEKAR

Wipro's chief financial officer, Jatin Dalal said.

The company had previously announced a buyback proposal for purchase of up to 323.1 million equity shares of ₹2 each from the shareholders on a proportionate basis by way of a tender offer at a price of ₹325 per equity share payable in cash for an aggregate amount not exceeding ₹10,500 crore. After receipt of shareholders' approval, the company has filed the draft letter of offer for the buyback with SEBI. Upon receipt of approval from SEBI, the company will complete the buyback process.

"Our efforts on client mining

have resulted in an addition of three customers in more than \$100 million bucket. We will continue to build differentiated capabilities to drive business transformation for our customers by investing in our big bets," Abidali Z Neemuchwala, CEO and Executive Dir-

In his last address to shareholders, Premji on Tuesday said the company is focusing on four new-age technology areas which are digital, cloud, engineering services and cybersecurity to drive its growth. Premji will pass on the mantle to his son, Rishad Premji after his tenure ends.

Azim Premji helps create India's newest tech unicorn

Icertis raises \$115 m from Premjilnvest, **Greycroft Partners** and others

BLOOMBERG

Billionaire Azim Premji has helped create India's latest tech unicorn: a fast-rising software start-up that symbolises the growing investor interest in India's enterprise technology space.

Icertis, which competes with SAP SE and Oracle Corp to help businesses manage contracts in the cloud, has raised \$115 million, propelling it to unicorn status as investors flock to enterprise software makers.

The advanced-stage funding round in Bellevue, Washington and Pune-based Icertis was co-led by Grevcroft Partners LLC and Premii-Invest, the fund managed by the family office of Indian tech billionaire Premji. Existing investors including B Capital Group, Eight Roads Ventures and Cross Creek Advisors participated. With this, Icertis has raised over \$211 million. The enterprise software segment is heating up as investors from Tiger Global Management to Sequoia and Accel scour the industry for India's next start-up giants. Many are expected to be business-rather than consumer-focused, as the country's talent pool shifts from IT outsourcing services for global clients toward designing and providing online software.

Icertis said it now helps customers worldwide manage over 5.7 million contracts, from supply chain and procurement deals to employee agreements and non-disclosure pacts, which have a total value of more than \$1 trillion.

"As contracts get converted from static documents to digital assets for the first time in history, every dollar in or out is governed by a contract, putting them at the heart of every enterprise," said Samir Bodas, Icertiss Co-founder and Chief Executive Officer. "Every global company faces unprecedented global competition and needs software to manage contracts."

"Icertis is currently valued at well north of \$1 billion," Bodas added. The company will use the additional funding to grow its business, including by expanding sales and marketing.

Dearth of IT talent biggest issue today: Nasscom

OUR BUREAU

Chennai, July 17 Fix the talent issue, do something in the talent space-this is the most sought after request of IT companies to Nasscom. "Talent is the biggest pain point that our members are facing. This is the situation in every city," Debjani Ghosh, President,

Nasscom, said on Wednesday.

"If we don't fix the problem of talent pool and don't build a strong talent pool, then companies are going to start hiring from each other because this is the pool that exists and this is a very small. That's going to have an impact on wages, and redefine the entire competition landscape for companies," she told newspersons on the sidelines of a two-day Nasscom HR Summit.

growth, talent is the biggest challenge that needs to be overcome, she added. Last year was pretty good with the IT industry hiring a net of 1.80 lakh people. "I am not going to predict a number and giving guidance does not make any sense as technology is changing quite fast," she said to a query on the outlook for this year.

However, the CEO survey was pretty positive as the digital transformational opportunity globally is growing and the Indian IT is at the heart of it. It is not about how much you can hire, but are there enough people you can hire. "We are in



Debjani Ghosh, President, Nasscom BIJOY GHOSH

an exciting time. I am very bullish and extremely convinced that the \$1-trillion digital economy is a reality," she

The second focus area for Nasscom is around innovation as the Industry 4.0 is moving from closed IP to open IP; open innovation and joint IP. The new world is about co-creation from big technology to

There is no dearth of innovation in India. In the past, innovation was happening in Silicon Valley, but today it is happening in Indian companies. "We need to figure a way out to see that some of the innovations are adopted and scaled in India. This is a big challenge. There are some fundamental issues that need to be solved starting especially with the government, which needs to procure tech-

Innovation thrives in India but the market does not. "We have to invest in creating the market. We are addressing this

nology, she said.

issue by focusing on three verticals - health, agri and manufacturing-by working with the industry and the government to grow the ecosystem and pace of innovation in these verticals, and also on how to drive adoption, scale and bring it all together," she said.

To a query on US making frequent regulations, Ghosh said there is a lot of rhetoric, which happens for political reasons and business continues. "We will keep listening and watching the rhetoric. However, it is not easy to change a law in the US. It has to go through several processes. The fact is that Indian IT companies are adding tremendous value in the US...

net falls 41.4% PRESS TRUST OF INDIA

Mindtree Q1

New Delhi, July 17

Mid-size IT firm Mindtree has posted a 41.4 per cent fall in consolidated net profit to ₹92.7 crore for the first quarter ended June 30 as against ₹158.2 crore in the year-ago period, it said in a statement.

Mindtree's revenues rose 11.9 per cent to ₹1,834.2 crore quarter from ₹1,639.5 crore in the yearago period. Sequentially, the net profit fell

53.3 per cent from ₹198.4 crore in March quarter, while revenue declined marginally from ₹1,839.4 crore.

Meanwhile, Mindtree said L&T Group Chairman AM Naik has been appointed as non-executive chairman of the IT company.

Xiaomi sets sights on premium segment started seeing big movement

Launches phones with a price tag of over ₹20,000

OUR BUREAU New Delhi, July 17

Chinese tech firm Xiaomi on Wednesday launched what it called the first flagship phones under its Redmi sub-brand – K20 and K20 Pro. The company is now focussing on the premium smartphone segment (above ₹20,000) as it looks to grow its market share there. Both the newly-launched phones will go on sale from July 22 on online and offline channels.

"Starting this year, we have

above ₹20,000. We would want to focus on this segment also," said Manu Jain, Managing Director, Xiaomi India. The K20 starts at ₹21,999 and the K20 Pro at ₹27,999. Both phones share similar features and build, but K20 is powered by the Snapdragon 730 processor, while the K20 Pro gets the flagship Snapdragon 855 processor, also seen on the new OnePlus 7 phones. Jain said the features of these

phones will be highlighted in communications. "For this particular product, we would be making a lot more investments from a communication perspect-

+ 'Reskilling, upskilling key as digitisation era is unfolding'

As digitisation expands its horizon and skilling becomes indispensable for professionals across the IT spectrum, industry body Nasscom, at the annual twoday HR Summit here, introduced the Digital Skills Maturity Index, a tool to help companies align their digital skilling strategy.

In the first year, it will be a self-diagnosis to help companies measure themselves where they stand in the digital skilling. Over the next two or three years, it will be used as a benchmark, said Kirti Seth, FutureSkills Nas-

scom. The global digital transformation market is expected to grow to \$2,280 billion by 2025 from the \$445 billion in 2017. This means India's digital economy could rise to nearly \$1 trillion by 2025 from the present \$200 billion

Digital talent

The demand for digital talent is projected to grow at 35 per cent CAGR between financial years 2019 and 2023. In 2023, at the current trajectory, the requirement will rise to 2.3-2.7 million digitally skilled professionals, Seth said.

"If we want to be on the



Kirti Seth, FutureSkills Nasscom

top, we need to move along with the industry, which is in to digital. Talent is the new competitive advantage for companies and nations," she told on the sidelines of the summit.

Seth said Nasscom aims to transform India by enabling Digital@Scale through the FutureSkills initiative. The immediate objectives include transforming 100 universities to supply digital talent, upskilling four million professionals by 2025 and driving the 'STEM to STEAM' transformation and ensuring its implementation

Rising investments

across the industry.

Several companies are adopting new age technologies to remain relevant. The industry is witnessing rising investments towards skilling initiatives in technologies

such as artificial intelligence, machine learning, data science, cyber security, cloud and blockchain, she

Debjani Ghosh, President, Nasscom, said as digital technologies disrupt industries, capacity-building and skill development emerge as core components working towards bridging the current skill gap.

With reskilling and automation emerging as the future drivers of the industry, the industry aims to craft a new wave of growth and innovation through a digitally skilled pool of professionals, she said.

L&T Infotech to acquire Lymbyc for ₹38 cr + our Mosaic platform." Sanjay Ja-

OUR BUREAU

Mumbai, July 17 Larsen & Toubro Infotech Ltd (LTI), a technology consulting and digital solutions company, has signed a definitive agreement to acquire Bengaluruheadquartered Lymbyc Solutions Pvt Ltd for ₹38 crore in cash.

Lymbyc (previously known as Ma Foi Analytics) is a specialist Artificial Intelligence, Machine Learning and advanced analytics company. The acquisition will further strengthens LTI's digital and analytics offerings, the company said in a statement.

"We believe self-service capabilities for AI and advanced analytics will be the next wave of disruption in the marketplace and Lymbyc brings this capability to lona, Chief Executive Officer and Managing Director at LTI said.

Lymbyc is being acquired on a "cash-free, debt-free basis", which will be paid as a combination of upfront and three-year earnout payments, the statement said, adding, the transaction is expected to be completed in 4-6 weeks.

The company has 53 employees, including data scientists, computational linguistics, and technology experts. It posted a Founder and CEO at Lymbyc said.

revenue ₹7.1 crore for FY19. Lymbyc is the fifth acquisition by LTI since the company was listed in 2016. . "With AI becoming increasingly mainstream, we are excited to join hands with LTI and to help a larger and richer set of clients. Leni, our AI-based Virtual Analyst is perfectly suited to deliver better value to business users and maximize their information and analytics investments." Satvakam Mohanty.

AVT Natural Products Limited Regd. Office: 60, Rukmani Lakshmipathy Salai, Egmore, Chennai - 600008

Tele.fax: 044-28584147, Email: avtnpl@avtnatural.com, Website: www.avtnatural.com,

CIN : L15142TN1986PLC012780 NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the Compan will be held on Friday, 9th August 2019 at 11.00 A.M. at 'Palkhi Hall', Hotel Vestin Park 39, Montieth Road, Egmore, Chennai - 600 008 to transact the business, as set out in the notice of AGM, sent to the members individually.

The Notice & Annual Report for the financial year ended 31st March 2019 has been sen to all the members electronically at the email IDs registered with the Company Depository Participant on 15.07.2019 and the physical copy has also been sent to other eligible members individually at their addresses registered with the Company / Share Transfer Agent of the Company in the permitted mode on 16.07.2019. These documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during norma business hours on working days except saturdays, sundays and public holidays prior to

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as the Agency to provide e-voting facility. Members holding shares in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Resolutions as set out in the Notice.

The remote e-voting facility shall commence on 06.08, 2019 at 9:00 a.m. and shall end on 08.08.2019 at 5:00 p.m. E-voting portal shall be blocked after the aforesaid date and time for voting. Once the vote is cast by the member on any resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently. The procedure and other details of remote e-voting are described in the Notice of the AGM.

Members who have not cast their votes through remote e-voting can exercise their votes at the AGM. The Company will provide the facility of voting through Poll at the AGM Venue. The Members who have already cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again

The 'cut-off date' for the purpose of e-voting is 02.08.2019 and a person, whose names is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on 'cut-off date' shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

Any person who acquires shares after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the 'cut-off date' may obtain the login ID and password by sending a reques $helpdesk.evoting@cdslindia.com\ by\ mentioning\ their\ Folio\ No.\ or\ DP\ ID\ \&\ Client\ ID\ No.$

Mr. V Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for the remote e-voting process and voting through physical ballot at the

The Notice of AGM is also available on the Company's website www.avtnatural.com and on the CDSL's website www.evotingindia.com. In case of any queries relating to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Any grievance relating to e-voting facility, members may contact Mr. Narasimhan.D, Joint Manager, Cameo Corporate Services Limited, Subramaniam Building, No.1 Club house road, Chennai - 600 002 Tel: 044-28460390 or email: investor@cameoindia.com.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the register of Members and Share Transfer Books of the Company will be remain closed rom 03.08.2019 to 09.08.2019 (both days inclusive) for annual closing and AGM.

By order of the Board For AVT Natural Products Limited

Company Secretary

'India's strength in AI is the amount of data available'

New Delhi, July 17

Huma Abidi. Director. Machine Learning/Deep Learning Software Engineering, Intel Corporation, spoke to BusinessLine about artificial intelligence and India's strength. Excerpts:

What is your perspective on artificial intelligence (AI) in India?

In general, I would say it is similar to what is happening globally. Maybe it will take a little longer for various reasons, but we have to build up on the strength that India has. And one of the main thing is the amount of data that is available. Intel India is the second-biggest R&D for Intel. The number of AI startups in India... that is all giving a lot of hope. I wouldn't say India is different from the AI revolution that is happening; it is a part of it.

Where do you see India right now when it comes to harnessing this (data) potential?

I think it is positioned very well. It is too early for me to make specific comments. From Intel's perspective, we have started. It is not at the same place as we have in other places, but I think How do we encounter

The good thing about AI is

the open source. With AI,

people are building over

breakthroughs. They are

Github for people to share

Director Machine Learning/Deep

we are moving forward. In In-

dia, education and understand-

ing of AI is very important.

Learning Software Engineering Intel Corporation

putting the models on

each other's

HUMA ABIDI

problems associated

with AI and what are the checks and balances that can be broadly talked about?

Almost everybody who is doing AI work is now thinking about how to encounter them (problems). The Stanford University recently created a department

for ethics and compliance. It is basically involving the government, there are many consortiums...almost all major companies are becoming part of that, making sure that everybody is conforming and any neural network that will be deployed has to follow those rules. The starting point is that all major companies, government have to come to an agreement that this model cannot be deployed unless it meets certain criteria.

In India, in the absence of government regulations, does the initiative fall on the companies?

Yes, if you are deploying a model it is absolutely your responsibility. The onus is on the person using it. One good thing about AI is the open source. With AI, people are building over each other's breakthroughs. They are putting the models on Github (a software development platform) for people to share.

Have you identified focus areas in India where you can work on?

All Nivruti Rai (Country Head, Intel India) and I talked about was we are going to work together. At this point we have only talked at the high level. We are very excited.



COCHIN SHIPYARD LIMITED

Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi 682015, Ph: 0484 2501307. Fax: 0484 2370897. Website: http://www.cochinshipvard.com CIN: L63032KL1972GOI002414

NOTICE

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday August 13, 2019 at 11.00 AM at 'The Mercy Hotel', M.G. Road, Ravipuram, Kochi - 682015 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the notice of AGM dated July 08, 2019.

furnished by NSDL/CDSL as on Tuesday, August 06, 2019. The register of shareholders and the share transfer books of the $Company will remain closed from Wednesday, August 07, 2019 \ to \ Tuesday, August 13, 2019 \ (both \ days \ inclusive) \ in \ connection \ with \ an algorithm of the property of the proper$ the AGM for the purpose of ascertaining shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Company The notice of the 47th AGM of the members, annual report for the financial year 2018-19, attendance slip and proxy form of the Company has been dispatched to all the members by speed post or registered post or courier or electronic mode to their registered

The Company would pay dividend to the shareholders whose names appear on the register of shareholders/beneficial owners as

addresses. The dispatch of these documents have been completed on July 17, 2019 and the same is also available on Company website at www.cochinshipyard.com and also on CDSL website at www.evotingindia.com. Voting through Electronic Mode

July 17, 2019

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing electronic voting (remote e-voting) facility to its members through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All businesses/resolutions set forth in the notice of the AGM may be transacted through
- The remote e-voting period shall commence at 09.00 a.m. on August 10, 2019 and ends at 05.00 p.m. on August 12, 2019. During this period shareholders of the Company as on the cut-off date of August 06, 2019 holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice and hold shares as on
- cut-off date of August 06, 2019 may obtain the Login Id and Password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. at their e-mail id coimbatore @linkintime.co.in. The facility for voting through electronic mode or ballot will also be made available at the AGM hall. Any member, who has already exercised his/her votes through remote e-voting, may attend the Meeting but is prohibited to vote at the Meeting and his/her vote, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid. Only persons whose name is recorded in the register of
- avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. The remote e-voting module shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on August 12, 2019 and the same may be disabled by

members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to

- In case of any queries or issues regarding remote e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- In case of any queries/grievances concerned with remote e-voting facility, members may contact Shri Rakesh Dalvi, Manager Marathon Futurex, 'A' Wing, 25th Floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Contact No. - 1800225533, e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Cochin Shipyard Limited V Kala Company Secretary

Place: Chennai

Date: 17.07.2019

(Dileeprai, P)

2019 ജൂലായ് 18 • വ്യാഴാഴ്ച **മാത്യഭ്രമി**

രാജുനാരായണ സ്വാമിയെ പുറത്താക്കൽ

ശുപാർശചെയ്തത് സേവന മികവില്ലെന്ന പേരിൽ

മിക്ക് നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ നൽകാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യ ക്ഷനായ സമിതി കാരണമാക്കിയ ത് സേവന മികവില്ലെന്ന കണ്ടെ

ഇദ്ദേഹത്തിൻെറ 27 വർഷ ത്ത സേവനകാലത്തെ വാർ

ഉപകാരസ്മരണ വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുടെ മദ്ധ്വസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്വം സാധിച്ചതിന് ഉപകാരസ്മരണ.

ജ്വോതിഷ്കുമാർ

ട്ട്സിലുള്ളത്. രാജു നാരായണസ്വാമിയെ കൂടാതെ ഉഷ ടൈറ്റസ്, കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ, രത്തൻ ഖേൽക്കർ, പി. വേണുഗോപാൽ, ബിജു പ്ര ഭാകർ, വി. രതീശൻ, എൻ. പദ്മ കുമാർ എന്നീ സിവിൽ് സർവീ സ് ഉദ്യോഗ്സ്ഥരുടെ പ്രകടനവും യോഗം വിലയിരുത്തി. ഇതിൽ രാ

> ഇതുവരെയുള്ള സർവീസിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവർത്തന അവലോകനത്തിൽ മാത്രമാ ണ് സ്വാമിക്ക് വിശിഷ്ടസേവന

ജുനാരായണ സ്വാമിക്കെതിരേ

മാത്രമാണു നടപടി ശുപാർശ

റിപ്പോർട്ടുക⊙ സമിതി പരിഗണി

ച്ചതായാണ് ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോ ഗസ്ഥരുടെ സേവന് പുനഃപരി

ശോധനാ സമിതി യോഗ മിനു

പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അഴിമതിക്കാരുടെ സംഘം -രാജുനാരായണ സ്വാമി

▶അഴിമതിക്കു കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതിൻെറ പേരിൽ, അഴിമതിക്കാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് തന്നെ സർവീസിൽനിന്നു പുറത്താക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്ന് രാജുനാരായണ സ്വാമി പറ ഞ്ഞു. അവധിയെടുത്തത് സർക്കാർ അനുമതി യോടെയാണ്. അഞ്ചും ഏഴും വർഷം അവധി യെടുത്തവർ സർവീസിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ക്ഷി വകുപ്പിൽ തൻെറ പ്രവർത്തനം മികച്ചതായിരു ന്നുവെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഔദ്യോഗിക ഭാ ഷാവകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതിൽ മനംനൊന്താണ് അവധിയെടുത്തത്.

2013-14ലെ റിപ്പോർട്ടിലൊഴികെ തൻെറ എല്ലാ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിലും പ്ര കടനം 'ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്' എന്നോ 'വെരി ഗുഡ്'

Approved

Kolenchery, Eranakulam 🔾 +91 8547936456, 8547935456

എന്നോ ആണുള്ളത്. അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ആളിൻെറ അഴിമതിക്കേസ് പുറ ത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിൻെറ പകപോ ക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ റിപ്പോർട്ട് മാ റ്റണമെന്ന് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്. എം. വിജയാനന്ദ് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതിയി രുന്നു. അതിപ്പോഴും കേന്ദ്ര പരിഗണനയിലാണ്. 2016–ലാണ് ഒടുവിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച

ത്. പ്രകടനം മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥാനക്ക യറ്റം കിട്ടുമായിരുന്നോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോ ദിച്ചു. നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ എല്ലാ ആരോപ ണങ്ങ≎ംക്കും മറുപടി നൽകും. അതിന് അവ സരം നൽകാതെ നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ നട പടി ഉണ്ടായാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെ ന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു

Kerala State Poultry Development Corporation Ltd. (KEPCO) invites ReeTenders for the Supply of "PRINTED PACKAGING COVERS & LAMINATED STICKERS (Multi-Colour)", Supply of "05 - BIRDS POULTRY CAGES" and Supply & Installation of "POULTRY CAGES" Last date for bid submission: 30.07.2019. For more details please log on to www.kepco.co.in / www.kepconews.blogspot.in

RE - eTENDER NOTIFICATION





ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിതിൻ 28/19 S/o പ്രസാദ് നിലന്താനത്ത് വീട്, റാക്കാട്, മുവാറ്റുപുഴ എന്നയ ത്യസ്ത്യാന് സ്വാസ്ത്രസ്ത്ര വിട്ടു സ്വയാഗ്യുപുഴ എന്നയാ ളെ 01.02.19 തീയതി പകൽ 11.30 മണി മുതൽ ടിയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായ കാര്യത്തിന് മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്ലേഷൻ ക്രൈ 301/19 U/S 57 of KP ACT പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവ രുന്നതാണ്. ടിയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കു ന്നവർ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

അടയാള വിവരം: 5 അടി ഉയരം, ഇരുനിറം**.** DYSP Dist Crime Branch Aluva : 9497990075 SLof Police Dist Crime Branch Aluva: 9497980493, 9497975450, 944757528

District Crime Branch Office Aluva: 0484 2623322

KERALA SOCIAL SECURITY MISSION

ടെൻറർ നോട്ടീസ്

കേരള സാമൂഹ്വ സുരക്ഷാ മിഷൻ നടപ്പാക്കിവരുന്ന വയോമിത്രം പ്രോജ ക്ലിൻെറ ഏലൂർ, കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ, കളമശ്ശേരി യുണിറ്റിന് വേണ്ടി ടാക്ലി പെർമീറ്റുള്ള 1200 നും 1500 നും മല്വേയ ക്യൂബീക്ക് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള (2014 മുതലുള്ള മോഡൽ) 3 വാഹനം ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് കരാറടിസ്ഥാന ത്തിൽ വാടകയ്ക് ആവശ്വമുണ്ട്. ആയതിന് വ്വക്തികളിൽ നിന്നും/ഏജൻസ് കളിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻറർ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ 9072582494, 9645082992, 9072302563 എന്ന നമ്പറിലും ലഭ്യമാണ്.

DEPARTMENT OF TOURISM

(ഒപ്പ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ



TENDER NOTICE

Tender No.: HB3-5868/2017

Tenders are invited from Government Accredited Agencies as per the Govt. order G. O. (P) No. 95 / 2017 / Fin dtd: 25.07.2017, for the work 'Extension of Govt. Guest House, Thycaud, Thiruvananthapuram'. Interested accredited agencies may log on to www.keralatourism.org for details or contact the office of the undersigned during working hours (contact no. 0471-2560415, 0471-2560417). Last date and time for receipt of tenders is 2 PM on 29.7.2019.

സെൻട്രൽ യൂണിവേഴസിറ്റി ഓഫ കേരള (2009-ലെ കേന്ദ്രിയ സർവ്വകലാശാലാനിയമത്തിൻ കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായത്) തേജസ്വിനി ഹിൽസ്, പെരിയെ പി.ഓ., കാസറഗോഡ്-671 316.

No.: CUK/EST/RECRT/TEACH/2015.

അധ്യാപനത്തിൻെറ ഒഴിവിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം (ഓൺ ഡെപ്വൂട്ടേഷൻ)നം. T/2/2019.

താഴെപ്പറയുന്ന അധ്യാപനവ്വത്തിയുടെ ഒഴിവിലേക്ക് (ഓൺ ഡെപ്യൂ ട്ടേഷൻ) നിയമിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷകരം ക്ഷണിക്കുന്നു

തസ്കികയുടെ പേര് വിഭാഗം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രൊഫസർ നിയമം

അവശു യോഗുത, പരിചയം, ശമ്പളം, അപേക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ്. ഫീസ് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങരം ഉരംക്കൊള്ളുന്ന വിജ്ഞാപനം സർവ്വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റായ www.cukerala.ac.in ൽ ലഭ്യമാണ് സർവ്വകലാശാലയിൽ അപേക്ഷകഠം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയത്

> രജിസ്ട്രാര് davp 21353/11/0015/1920

BEFORE THE HON'BLE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II. ERNAKULAM Floor, Kerala State Housing Board Building, Panampilly Nagar Avenue, Panampilly Nagar, Kochi-682 036

O.A. No.598/2018 Central Bank of India

۷s

Noorjahan & others

Kollam Branch

12.08.2019-നാണ്.

: Defendants SUMMONS

Whereas, O.A. No.598/18 was listed before the Hon'ble Presiding officer on 1/7/19 WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice to D8 on the said Application under section 19(4), of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs.11,83,785/- (application

along with documents etc. annexed) In accordance with sub section (4) of section 19 of the Act, you, the

- 1. To show cause within thirty days of the service of summons as to why
- relief prayed for should not be granted. 2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and
- assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the origina You are restrain from dealing with or disposing of secured assets of
- such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for
- 4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.
- 5. You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale o secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security invest over such

You are also directed to file the written statement with a copy thereon furnish to the applicant and to appear before the Tribunal on 23/7/2019 at 11.00 A.M failing which the application shall be heard and decided in your

 Rameesa, W/o Sajad 295, Bharathan Vayal, Panthandumuri, Kollam Authorised to issue summons

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 4th day of July Signature of the Officer ത്തിന് മാർക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കഴി ഞ്ഞ ജൂലായ് വരെ ഇദ്ദേഹം 755 ദിവസം അവധിയെടുത്തതായും മിനുട്സിലുണ്ട്. 2013-14 വർഷത്തെ സ്വാമി

യുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരു ത്തിയ അന്നത്തെ ചീഫ് സെ ക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പ് മിനുട്ട്സിൽ

Finance Management,

Hospital Management,

Logistics Supply Chain

Edu-Link

Management

College Information Centre

NOTICE INVITING RE- TENDER

Commissioning of Cold room for Cardamo

and Vegetable Storage with Ante Room in First Floor of Agri. Complex at State

Warehouse Vandanmedu in Idukki Distric

Closing date of e –tender: 30.07.2019 5.00 PN For downloading tender documents

O mi-ma

സെൻറർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിറ്റ്)

ഫോൺ: 0471-2330081

VIDEO PRODUCTION CREW EMPANELMENT

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ

സി-ഡിറിൻെറ വീഡിയോ കമ്മ്യാണി

ക്കേഷൻ ഡിവിഷന് കീഴിൽ വിവിധ

സാങ്കേതികപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികൾ/ഏജൻസികൾ എന്നി

വരുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നു.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.cdit.org

അവസാന തീയതി: 2019 ജൂലൈ 30

NOTICE INVITING E-TENDER

The Executive Engineer

Lakshadweep Public Works

Department, Kochi Division, on

behalf of President of India

invites e-tenders from the eligible

firms/contractors, for the work of

"Construction of Government

Senior Secondary School at Minicoy Job I,II,III, Special

repairs & maintenance of

Stadium, Rate Contract of

General items for One year'

(5works). All the details of the

works including critical dates of

submission of bids can be viewed

and verified from the website:

www.tendersutl.gov.in. For

Executive Engineer's Office at

0484-2668104/2668089 during

OFFICE OF THE COCHIN DEVASWOM BOARD

Ph : 2331124, 2327028, Fax: 2335874, 232702

Email:admin@cochindevaswomboard.org

No. A9-7654/19 Dated 16.07.2019

ടെണ്ടർ പരസം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര

ത്തിൽ 1194 ME മീനഭരണിയോടനുബന്ധിച്ച്

നടവരവ് വന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2871.000 Kg.

ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് 5000.000 Kg. എന്നിവ

യ്ക്ക് സീൽവെച ടെണ്ടറുകൾ **2019 ജുലൈ** മാസം 25-ാം തിയ്യതി പകൽ 3 മണിക്ക് മുന്ഥയി

കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡോഫീസിൽ രജിസ്

ട്രേഡ് തപാൽ വഴി മാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്

ഈ ടെങ്ങറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങ

ൾ www.cochindevaswomboard.org എന്ന

വെബ്സൈറ്റിലും തിരുവഞ്ചിക്കുളം അസി

സ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്, ശ്രീ ദേവസ്വം

ഓഫീസ്, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസ്

എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ

അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

Sd/- Executive Engineer

ഫോൺ നമ്പർ: 9446256655

സന്ദർശിക്കുക.

(Excluding GST

Rs.50.000/-

under RKVY Scheme

Tender submission fee

ണ്ട്. സ്വാമിയുടെ മനോനിലയിൽ തന്നെ സംശയം പ്രകടിപിക്കുന്ന ഗുരുതര പരാമർശമാണ് ഇതി

രാജു നാരായണസ്വാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ മറ്റ് ഏഴുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ഒന്നുംതന്നെ മിനു

Language Training

Visiting Professors

2019/20 ADMISSION STARTED

Interviews

ട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനു പുറമേ കർണാടക അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി.എച്ച്. അനിൽകു മാർ, ടി.കെ. ജോസ്, കമല വർ ധനറാവു, രാജൻ ഖോബ്രഗഡെ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പ്രവർത്തന വിലയിരുത്തൽ നട

Distance Education (Learning Study Centre) HR, Marketing, Banking OUR FACILITIES ■ Placement Assistance

Spoken English Classes Prepare Studies for **B.Sc Nursing / GNM** Experienced hands are preferred Digital Class Rooms

മുവാറ്റുപുഴ്ച ശ്ലാഖ്യ

Freshers can also apply. Apply to: hrfaculty2@gmail.com

100 Vacancies

Call: 9526710025, 9048001676

Canara Bank എന്നാകുളം, Ph : 0485-2832374, 283502 E Mail- cb714@canarabank.com

സെക്വൂരിറൈറസേഷൻ ആന്റ് റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്വൽ അസെററ്സ് ആന്റ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്വൂരിററി ഇന്ററസ്ററ് ആക്ട് 2002 (Act 54 of ആന്റ് എൻപോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറി ഇന്റസ്റ്റ് ആക്ട് 2002 (Act 54 of 2002) പ്രകാരം അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കനറാ ബാങ്കിന്റെ അധികാരംപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ററസ്റ്റ് (എൻപോഴ്സ്മെന്റ്) റൂർസ് 2002 സെക്ഷൻ 13 (12) റൂർ 3 പ്രകാരം, വായ്പ്പ എടുത്ത വായ്പ്പക്കാരായ ശ്രീ. ജീബി കുരുടക്കാന്, മുത്തേടത്ത് കുടിയിൽ, സൗത്ത് 2005ടി പി.ഒ, മുവാറ്റുപുഴ 6 ശ്രീ.ഇട്ടാപിരി (സഹവായ്പ്പക്കാരൻ 6 പണയക്കാരൻ), മുത്തേടത്ത് കുടിയിൽ, സൗത്ത് 2005ടി പി.ഒ, മുവാറ്റുപുഴ എന്നിവർക്ക് കുടിയ്യിക തുകയായ രൂപ 78,13,370.75 (എഴുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി പതിമുവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ എഴുപത്തിയത്ത് വൈസ) 60 ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് ഒരു ഡിമാൻറ് ഹോടീസ് 11-02-2019 ൽ അയപിരുന്നാ

നാടീസ് **11-02-2019** ൽ അയച്ചിരുന്നു. വായ്ഷക്കാരൻ∕പണയക്കാരൻ പ്രസ്തുത സമയത്തിനകം തുക അടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മേൽ്ഷറഞ്ഞ ആക്ടിലെ റൂൾ 8 & 9 സെക്ഷൻ 13(4) പകാരമുളള അധികാരമുപയോഗിച്ച് താഴെ്പട്ടികയിൽ്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാവശ ⊔സ്തു് ഇനേ ദിവസ്ം **2019് ജൂലൈ്മാസം 12** -ാം് തീയതി് കൈവശ മെടുത്തിരിക്കുന്നതായി വായ്ഷക്കാരനേ/പണയക്കാരനെ പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളെ പൊതുവായും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊളളുന്നു.

സെക്ഷൻ 13(8) വകുപ്പ് പ്രകാരം വായ്പ്ക്കാരൻ/പണയക്കാരൻ ഈടുവസ്തു തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ലഭ്യമാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്വപ്പെടു

ഈ വസ്തുവിൽ യാതൊരുവിധ ഇടപാടുകളും നടത്തരുതെന്ന് വായ്ഷക്കാരനെ/ പണയക്കാരനെ പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളെ പൊതുവായും ഇതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ വസ്തുവിലുളള എതൊരു ഇടപാടും **കനറാ ബാങ്കിന്** ലഭിക്കാനുളള കുടിശ്ശിക തുകയായ രുപ 86,53,830.75 രൂപ (എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി് മൂവായിരത്തി എണ്ണുറ്റി ചിലവുകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും

സ്ഥാവര വസ്തുവിന്റെ വിശദ വിവരണം

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ, മുവാറ്റുപുഴ രജിസസ്ട്രേഷൻ ഉപജില്ലയിൽ, മാറാടി വില്ലേ ജിൽ, സർവേ നം. 223/1 ൽ പ്പെട്ട് 76.08 ആർസ് സ്ഥലവും അതിലിരിപ്പ് താമസയോഗ്യമായ കുട്ടിടവും ഷെഡ്ഡും മറ്റു സകലവിധ അവകാശങ്ങളുമാകുന്നു. **അതിരുകൾ** : **വടക്ക** MVIP കനാൽ റോഡ് : തെക്ക് മണി, പനക്കുടി വക വസ്തു ; കിഴക്ക് ബേബി, കിഴക്കു തോട്ടത്തിൽ വക വസ്തു ; **പടിഞ്ഞാറ്**: മത്തായി, മാമ്പിള്ളിക്കുഴി വക വസ്തു.

(ഒപ്പ്), അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന



അക്ഷയ AK-404 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം 17/07/2019

ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ AW 392935 ആലപ്പുഴ)

AN 392935 AO 392935 AP 392935 AR 392935

AU 392935 AS 392935 AT 392935 AV 392935 AX 392935 AY 392935 AZ 392935

2–ാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ

AU 305415 (എറണാകുളം)

AN 511161 AO 625071 AP 279641 AS 927891 AT 484850 AU 324431 AV 432084 AW 548997 AX 641887 AY 873487 AZ 199866

4-ാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
 1063
 2757
 2850
 3061
 3101
 3745

 4499
 5716
 5837
 6981
 8410
 9135
5–ാം സമ്മാനം 2000 രൂപ 3583 4696 6862 8226 9396 9956 6–ാം സമ്മാനം 1000 രൂപ 0380 0578 0622 0737 1075 1289 1676 1825 2001 2025 2039 2836 3505 4119 4220 5081 5861 7389 7534 7658

7-ാം സമ്മാനം 500 രൂപ 0071 1070 1423 1495 1672 1766 1931 2004 2349 2361 2496 2663 2859 2917 3059 3592 3650 3734 3818 4172 4273 4731 5077 5302 5579 5999 6070 6102 6216 6356

6402 6797 6889 7325 7338 7350 7650 7728 8097 8166 8182 8547 8548 8657 8809 9083 9508 9668 8–ാം സമ്മാനം 100 രൂപ 0012 0092 0347 0370 0405 0489 0900 1012 1132 1400 1410 1458 1514 1516 1620 1682 1813 1843 1864 1870 1934 1990 2045 2071 2098 2167 2185 2368 2425 2514

2560 2569 2665 2729 2759 2924 2967 3048 3141 3325 3703 3735 3825 3847 3882 3887 3959 4037 4065 4153 4166 4513 4603 4748 4870 4876 5095 5128 5272 5323 5533 5728 5815 5847 6086 6112 6206 6857 6861 6907 6930 7200 7211 7333 7496 7520 7529 7628 7679 7731 7767 7787 7877 7952 7978 8006 8081 8116 8129 8161 8231 8356 8508 8534 8630 8668 8833

(ഒപ്പ്) സ്പെഷ്യൽ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ യ്ഢ്യം ജോച്ചീഥ്യ ദേവഗ്നിം ബോർന്ന് ഓൗ്വ്വസ് (ഇഥ്യ— ചാർഞ്ജ്) തിയ്യതി : 16.07.2019

9711 9890

ശരീര സൗന്ദര്വത്തിനും ആരോഗ്വത്തിനും ആയുർ പവർ മാൾട്ട്

ശരീരെക്തിയും അഴകും ഭാരവും കൂട്ടുവാൻ

ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുവാൻ

മിനറൽസും, പ്രോട്ടീൻസും, വൈറ്റമിൻസും നിറഞ്ഞത്

ം കായികതാരങ്ങൾക്കും, മെലിഞ്ഞവർക്കും ഫലപ്രദം 100% സുരക്ഷിതവും, പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്തതും

Ph:9995785797, 0487 2422263

കാനയിൽ വീണുപരിക്ക്: കൊച്ചി നഗരസഭ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം -കോടതി

കൊച്ചി ⊳ സ്ലാബിൻെറ വിടവിലു ടെ കാനയിൽ വീണ് പരിക്കുപറ്റി യയാഠംക്ക് കൊച്ചി നഗരസഭ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽ കണമെന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോ ടതി ശരിവെച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഒംബു ഡ്സ്മാൻ ഉത്തരവിനെതിരേ നഗ രസഭ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയാ ണ് ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലിയു

വടുതല സ്വദേശി റിച്ചാർഡ് മെൻഡസിനാണ് തുക നൽകേ ണ്ടത്. ഇദ്ദേഹം വീണയിടത്ത് കാ

നയ്ക്കു ഭാഗികമായേ സ്ലാബ് ഉണ്ടാ യിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് വിലയിരുത്തി യാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉത്തര വെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ആ ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ കാ രണമില്ല. ഹർജിക്കാരൻ ചികിത്സ

യ്ക്ക് ചെലവായ 64,000 രൂപയുടെ ബില്ലും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.കാന പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ വു വസ്ഥ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സ്ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വീണയായ ക്ക് വയ്യാതിരുന്നതാണ് വീഴാൻ കാരണമെന്നുമായിരുന്നു നഗര

ആലുവയിലെ കവർച്ച

അന്വേഷണത്തിന് ആറ് സ്ക്വാഡുകളിലായി 30 പേർ

യിൽ പുണോലിൽ ജോർജിൻെറ വീട്ടിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവർച്ച നടത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണ് സംഘം വിപുലീകരിച്ചു. അന്വേഷണ ത്തിന് ആറ് സ്ല്വാഡുകളിലായി 30 പേരെയാണ് ഉരം പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കേസുക¢ം അന്വേ ഷിച്ച് കഴിവു തെളിയിച്ചവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലുള്ളവരാണ് സംഘ ത്തിലുള്ളത്. അന്വേഷണം വിലയിരുത്താൻ സ്ല്വാഡ് തലവൻമാരെ ബുധനാഴ്ച എസ്.പി കെ. കാർത്തിക് ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ സി.സി. ടി.വി. ക്യാമറകളില്ല. സമീപത്തെ വീടുകളിലെയും റോഡിലെയും ക്യാ

മറയുടെ ദൃശ്യങ്ങാം പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കൂടുതൽ അന്വേഷ

ദ്വശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നട ത്തുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിലെയും തോട്ടക്കാട്ടുകരയിലെ യും ലോഡ്ലുകളിൽ കവർച്ച ദിവസം തങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങളും സംഘം ശേഖരിച്ചു.

അവിടെ താമസിച്ചവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ ലൊക്കേഷനുമെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധി ക്കുന്നുണ്ട്. കവർച്ച നടന്ന വീട്ടിൽനിന്ന് സംശയാ സദമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാല് വിരലടയാളങ്ങ ളാണ് ലഭിച്ചത്. അവ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ കിടപ്പു മുറിയിലെ ഡിജ് റ്റൽ ലോക്കറിൽനിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ വജ്രാഭ രണങ്ങ⊙ം, 20 പവൻ സ്വർണം, 65,000 രൂപ, 2000 യു.എസ്. ഡോളർ, 800 പൗണ്ട് എന്നിവയാണ്

മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ സൈക്കോളജി അപ്രന്റിസിന്റെ ഒഴിവ്

കൊച്ചി ▶ എറണാകുളം മഹാരാ ജാസ് കോളേജിൽ സൈക്കോളജി അപ്രൻറിസിൻെറ ഒഴിവിലേക്ക് റെ ഗുലർ പഠനത്തിലൂടെ സൈക്കോ ളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമു ള്ളവരിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണി ച്ചു. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, പ്ര വൃത്തിപരിചയം എന്നിവ അഭിലഷ ണീയം. ഉദ്യോഗാർഥികഠം സർട്ടിഫി ക്കറ്റുകളുമായി 24-ന് രാവിലെ 11-ന് അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം





🚌 കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്

രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് പ്രിമൈസസ്, പെരുമാനൂർ, കൊച്ചി: 682015, ഫോൺ: 0484 2501307, ഫാക്സ്: 0484 2370897, വെബ്സൈറ്റ് http://www.cochinshipyard.com സിഐഎൻ L63032KL1972GOI002414

2019 ജൂലൈ 08-ാം തിയതിയിലെ AGM (ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്) നോട്ടീസിൽ അറിയിച്ചതുപോലെ കമ്പനിയുടെ സാധാരണവും പ്രത്യേകവുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 13-ാം തിയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.00-ന് ദി മേഴ്സി ഹോട്ടൽ, എംജി റോഡ്, രവിപുരം, കൊച്ചി, 682015-ൽ കമ്പനിയുടെ 47-ാമത് വാർഷിക പൊതു

2019 ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തിയതി ചൊവ്വാഴ്ച NSDL/CDSL നൽകുന്ന ഓഹരിയുടമകളുടെ/ഗുണഭോക്തൂ ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്റ റിൽ പേര് വന്നിടുള്ളവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുന്നതാണ്. AGM ആയി ബന്ധപ്പെട്ട്, കമ്പനിയുടെ ലാഭവി ഹിതം ലഭിക്കുവാൻ അർഹരായ ഓഹരിയുടമകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, ബുധനാഴ്ച 2019 ഓഗസ്റ്റ് 7-ാം തിയതി മുതൽ, ചൊവ്വാഴ്ച 2019 ഓഗസ്റ്റ് 13-ാം തിയതി വരെ (രണ്ടു ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) ഓഹരി ഉടമകളുടെ രജി സ്റ്ററും, ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെയ്ക്കുന്നതാണ്.

47-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസും, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും, അറ്റ ൻഡൻസ് സ്റ്റിപ്പും, പ്രോക്സി ഫോമും, കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടമകൾക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ, രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റായോ, കൊറിയറായോ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ നൽകി യിട്ടുണ്ട്. ഈ രേഖകൾ അയയ്ക്കുന്നത് 2019 ജൂലൈ മാസം 17-ാം തിയതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ കമ്പനി വെബ് സൈറ്റായ www.cochinshipyard.com-ലും CDSL വെമ്പ്സൈറ്റായ www.evotingindia.com-ലും ലഭ്യമാണ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലുള്ള വോട്ടിംഗ്

കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013-ന്റെ സെക്ഷൻ 108-ഉം, കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടം 2014-ന്റെ 20-ാം ചട്ടവും കണക്കിലെടുത്ത്, കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഓഹരിയുടമകൾക്കും സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡി (CDSL)ലൂടെ ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. AGM നോട്ടീസിൽ പ്രതി പാദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും, പ്രമേയങ്ങളും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 10-ാം തിയതി രാവിലെ 9.00-ന് ആരംഭിച്ച് 2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 12-ാം

തിയതി 5.00 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. കട്ട് ഓഫ് തിയതിയായ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തിയതി വരെ കമ്പനിയുടെ ഓഹ രീകൾ രേഖാമൂലമോ, ഡി-മാറ്റ് രൂപത്തിലോ കൈവശമുള്ള ഓഹരിയുടമകൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ്

നോട്ടീസ് അയച്ചതിനുശേഷം കുട്ട് ഓഫ് തിയതിയായ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തിയതി വരെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയവർക്ക് ലോഗ് ഇൻ -ഐഡിക്കും പാസ്വേഡിനുമായുള്ള അപേക്ഷ helpdesk.evoting@cdslindia.com ലേക്കോ coimbatore@linkintime.co.in-ലേക്കോ (RTA, linkin time India Pvt Ltd-നോ) നൽകാവുന്നതാണ്.

പ്രമേയങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ബാലറ്റ് വോട്ടിംഗ് നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം AGM ഹാളിലും ലഭ്യമാ ക്കും. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ മുൻദിവസങ്ങളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അനു വദനീയമാണെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വോട്ട് ചെയ്താൽ അത് അസാധുവായി കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും. കട്ട് ഓഫ് തീയതിയില് അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റിലോ ഡിപോസിറ്ററികളുടെ കൈവശമുള്ള ഗുണഭോക്തൂ് ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്ററിലോ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള വൃക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇ-വോട്ടിംഗിനും AGM-ലും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 12-ാം തിയതി വൈകിട്ട് 5.00 മണിക്ക് ശേഷം റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല

ത്താൽ CDSL അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ, പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഹരിയുടമകൾ www.evotingindia.com-ലെ 'സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ' (FAQs) അല്ലെങ്കിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് യൂസർ മാനുവൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമേ helpdesk.evoting@cdslindia.com-ലേക്ക് ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചും

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച് ഓഹരിയുടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ. രാകേഷ ദാൽവി, മാനേജർ, മാരത്തൺ ഫ്യുച്ചറക്സ്, 'എ' വിംഗ്, 25-ാംനില, എൻ എം ജോഷി മാർഗ്, ലോവർ പരേൽ. മുംബൈ - 400 013, ഫോൺ: 1800225533, ഇമെയിൽ: helpdesk.evoting@cdslindia.com - എന്ന വിലാസത്തിൽ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി

വി. കല (കമ്പനി സെക്രട്ടറി)

ജൂലൈ 17, 2019

9107 9179 9341 9416 9479 9573 9585 9609 9681

चौदह साल का छात्र कृष मांग रहा है इच्छामृत्यू

भागलपुर 17 जुलाई (जनसत्ता)।

जिस उम्र में कोई किशोर जीवन में कुछ करने के सपने देखता है, उस उम्र में अगर वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिख कर कहे कि उसकी मरने की इच्छा है और उसे इसकी अनुमति दी जाए, तो सहज ही सवाल उठता है कि क्या वाकई वह ऐसे हालात से गुजर रहा है जिसमें जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज हो जाए। आठवीं कक्षा के एक छात्र ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिख कर अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। किशोर को जिंदगी से ज्याद मौत क्यों अजीज हो रही है, यह जानने और उसे समझने-समझाने का इंतजाम करवाया जा रहा है।

आठवीं कक्षा के छात्र कृष राज मित्र (14) ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र भेज अपने लिए इच्छामृत्यु की मांग की थी। इस मामले की जांच ज़िलाधीश प्रणब कुमार ने पूरी करा ली है। उन्होंने बताया कि अब जल्द ही बच्चे की काउंसलिंग कराने के बाद रपट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजी जाएगी।

ज़िलाधीश ने बताया कि कहलगांव के एसडीएम और एसडीपीओ को बालक की सुरक्षा के हालात की भी समय-समय पर समीक्षा करने को कहा गया है। कृष कहलगांव एनटीपीसी में डाइवर के पद से रिटायर अपने दादा के साथ रह रहा है। डीएम बताते हैं कि उसके माता-पिता के आपसी झगड़े और दूसरे पहलुओं पर जांच कराई

दरअसल कृष ने इसी साल मानवाधिकार आयोग से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को पत्र भेज इच्छामृत्यु की इजाजत मांगी है। पत्र में उसने लिखा कि मां ने अपनी नौकरी और तरक्की

कोल्लम (केरल), १७ जुलाई (भाषा)।

यहां की एक पॉक्सो अदालत ने 27 सितंबर,

2017 को अपनी सात वर्षीय भतीजी से बलात्कार

और उसकी हत्या करने वाले 25 वर्षीय युवक को

तीन आजीवन कारावास के अलावा 26 साल के

सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को सजा

अलग-अलग भूगतनी होगी। इसके साथ ही पीड़िता

के परिवार को 3.20 लाख रुपए जुर्माना देने का भी

आदेश दिया गया है। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों

का संरक्षण) अदालत के प्रभारी और कोल्लम के

बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, अगवा करने और

अदालत ने मंगलवार को राजेश को हत्या,

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ई बैजू ने सजा सुनाई।

के लिए बचपन से ही उसे दादा-दादी के पास छोड़ दिया। मां सुजाता कुमारी बैंक में नौकरी करती है और पटना में पदस्थापित है। पिता मनोज कुमार मित्र झारखंड के देवघर में ग्रामीण विकास महकमे में कार्यरत हैं और कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। पत्र में कृष ने लिखा है, 'मेरे सामने मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहता हूं।' उसने पत्र में पिता पर मां द्वारा किए मुकदमेबाजी का भी जिक्र किया है। पत्र पांच पन्ने का है।

इस पत्र पर 27 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मामले की जांच कराने को कहा। इस पर बाल संरक्षण के वरीय परामशर्दाता रमन कुमार गौड ने भागलपुर के ज़िलाधीश को 29 अप्रैल, 2019 को पत्न भेज मामले के तह तक जाकर जांच कराने को कहा।

साथ ही रिपोर्ट दस रोज में सौंपने की हिदायत दी थी, मगर ऐसा लगता है कि संसदीय चुनाव की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया। मगर इसके बाद जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पत्र का संज्ञान लिया तो ज़िलाधीश का दफ्तर हरकत में आया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी स्मरण पत्न भेज सात दिनों में जबाव मांगा है।

जानकार बताते है कि बालक के माता-पिता के आपसी रिश्ते 2011 से ज्यादा बिगडे हैं। लेकिन क्या मां-बाप के रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि 14 साल का बेटा उनसे परेशान होकर इच्छा मृत्यू की मांग करे।

फिलहाल तो जिन लोगों को कृष ने पत्र लिखा है, वे सभी जानना चाहते हैं कि कृष ने इच्छा मृत्यु की मांग किन स्थितियों में की। परामर्श की तैयारी की जा रही है, जिसके जरिए कोशिश की जाएगी कि कृष में आम किशोर की तरह जीवन के प्रति प्यार पैदा हो।

शव के साथ बर्बर व्यवहार करने के विभिन्न अपराधों

के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने कहा था

कि आरोपी ने कुलातुपुझा में रबड़ के खेत में ले

जाकर अपनी भतीजी का गला दबा दिया और उसके

साथ बलात्कार किया। दोषी युवक पीड़िता और

ट्यूशन के लिए जा रही थी। इसी बीच राजेश ने आकर

उनसे कहा कि वह उसे वहां तक छोड़ देगा। लेकिन

वह वहां से एक ऑटोरिक्शा में 16 किलोमीटर दूर रबड़

के खेत में लड़की को लेकर चला गया और वारदात

को अंजाम दिया। पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत

के आधार पर उसकी तलाश शुरू की। राजेश को

घटना वाले दिन लडकी अपनी दादी के साथ

उसके परिवार के साथ यहां आंचल में रहता था।

बलात्कार, हत्या के लिए युवक को तीन

उम्रकेद, 26 साल कठोर कारावास

दोषी को सजा अलग-अलग भुगतनी होगी

हिंदी के मुद्दे पर द्रमुक सदस्यों और रूडी के बीच तीखी नोकझोंक

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

लोकसभा में बुधवार को द्रमुक सांसद कलानिधि वीरस्वामी ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कुछ टिप्पणी की जिसका भाजपा सदस्य राजीव प्रताप रूड़ी ने कड़ा विरोध किया और कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, जिसके खिलाफ बोलना पूरी तरह अनुचित है।

'वर्ष 2019-20 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों' पर चर्चा में भाग लेते हुए वीरस्वामी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में तीन अवसरों पर हिंदी थोपने की कोशिश जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि द्रविड़ आंदोलन की भावनाओं के साथ चल रही हमारी पार्टी हिंदी भाषा को थोपने का विरोध करती रहेगी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक सदस्य ने हिंदी थोपे जाने के अपने आरोप का कई बार उल्लेख किया।

इस पर बिहार के सारण से भाजपा सदस्य राजीव प्रताप रूड़ी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा कि द्रमुक सांसद हिंदी को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो उचित नहीं हैं। खेल से जुड़े अनुदान के बजाय हिंदी के विरोध में बात करने का क्या मतलब है? उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कहा कि इसे रेकॉर्ड से हटाया जाए। हिंदी राष्ट्रभाषा है और इसका विरोध पूरी तरह अनुचित है। इस पर पीठासीन सभापति एनके प्रेमचंद्रन ने वीरस्वामी से कहा कि वह विषय पर बोलने का प्रयास करें।

इस दौरान रूड़ी और द्रमुक सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा के मनोज तिवारी और रवि किशन भी रूड़ी का समर्थन करते नजर आए। बाद में अपनी बात जारी रखते हुए वीरस्वामी ने कहा कि इस मंत्रालय का नाम 'यूथ अफेयर्स' से बदल कर 'यूथ एम्पारवमेंट किया जाना चाहिए।

सीबीआइ ने अतीक अहमद के परिसरों पर छापे मारे

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

सीबीआइ ने एक व्यापारी के अपहरण और उस पर हुए हमले के मामले में बुधवार को सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद और अन्य लोगों के प्रयागराज और लखनऊ स्थित परिसरों पर बुधवार को छापे मारे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज में चार स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें अहमद, उसके बेटे मोहम्मद उमर व उसके साथी जकी अहमद व फारूक के घर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश मिश्रा व उसके सहयोगी पवन कुमार सिंह के

लखनऊ स्थित अवासों की भी तलाशी ली गई। सीबीआइ के प्रवक्ता आर के गौड़ ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय जांच ब्युरो ने आज एक मामले की जांच के सिलसिले में पर्व सांसद और उसके सहयोगियों के लखनऊ और प्रयागराज स्थित छह ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज व सामान मिला है। अहमद के खिलाफ 12 जून 2019 को इस आरोप में मामला दर्ज किया गया था कि उसने दिसंबर 2018 में देवरिया जेल में बंद रहने के दौरान लखनऊ के रियल स्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल से रंगदारी मांगी थी। गौड ने कहा कि आरोप है कि जब

कारोबारी ने रंगदारी देने से इनकार किया तो पूर्व सांसद अहमद के साथियों ने उसका लखनऊ से अपहरण कर लिया और उसे एक कार में देवरिया जेल ले आए। प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि अहमद और उसके साथियों ने कारोबारी को धमकाया तथा पीटा और जयसवाल की सभी चार कंपनियों को जबरन अहमद के साथियों के नाम पर स्थानांतरित करा लिया। अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज किया गया था। अहमद 2004 से 2009 तक उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सपा के सांसद रहे थे।

सोशल मीडिया पर बीफ महोत्सव का न्योता भेजने वाला गिरफ्तार

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार

पत्र में प्रकाशन के लिये विजापन

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 02 रा तल

पं. दीन दयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन)

एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''राजस्थान राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित

करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24 जुन, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार

कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल

(www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी

को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों

का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पतेः बी-2

विंग, २रा तल, पंडित दीन दयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत

नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

प्लॉट नं. 24, चंदन विहार कॉलोनी, सायपु रोड, धौलपुर, धोलपुर, राजस्थान-328001 के मामले में:

तंजावुर, 17 जुलाई (भाषा)।

बीफ महोत्सव में लोगों को आमंत्रित करने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में जिले के 33 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कुंभकोणम में जल्द ही इस बीफ महोत्सव का आयोजन होने वाला है।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि तमिलनाडु कुडियारासू काची के संस्थापक एस एझिलन को फेसबुक पर यह आमंत्रण पोस्ट अपलोड करने के आरोप में

एन्जेन प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय है।

गिरफ्तार किया गया है। एझिलन कुंभकोणम के पास के इलाके में रहते हैं।

उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 298 (जानबुझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंचाने के इरादे से कोई बात कहना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी को अपमानित करना) और 505 (2) (दो वर्गों के बीच वैमनस्य घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बांदा में कर्ज से परेशान किसान ने खेत में फांसी लगाई

बांदा, 17 जुलाई (भाषा)।

बांदा के नगर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा डेरा गांव में बुधवार को एक किसान ने खेत में लगे पेड से फांसी लगा कर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। उपजिलाधिकारी (सदर) संदीप कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह किसान राम किशोर ने अपने निजी टयबवेल के पास खेत

में लगे बबूल के पेड़ से रस्सी का फंदा बना कर और उसमें फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। मृत किसान के परिजनों के हवाले से उन्होंने बताया कि किसान के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक का कर्ज और कुछ गांव के सुदखोरों का कर्ज था। उन्होंने कहा कि बैंक और सूदखोरों के कर्ज के बाबत जांच कराई जाएगी ।



मोरादाबाद मुख्य शाखा चौमखा पल मोरादाबाद

ई-मेलः moradabad.ghaziabad@bankofindia.co.in [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.1.2019 जारी कर श्रीमती अंजुम जहाँ, पत्नी श्री फारूक अहमद (ऋणधारक) तथा श्री फारूक अहमद, पुत्र स्व. श्री शरीफ अहमद (गारन्टर) तथा श्रीमती रहीला बेगम, पत्नी श्री साजिद खान (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,14,519.70 (रुपए पांच लाख चौदह हजार पांच सौ उन्नीस तथा पैसे सत्तर मात्र) के साथ सम्पूर्ण भगतान तक 03.01.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश

ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक श्रीमती अंजूम जहाँ, पत्नी श्री फारूक अहमद, श्री फारूक अहमद पुत्र स्व. श्री शरीफ अहमद (गारन्टर) तथा श्रीमती रहीला बेगम, पत्नी श्री साजिद खान (गारन्टर) तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 12 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां

नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों, गारन्टरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,14,519.70 (रुपए पांच लाख चौदह हजार पांच सौ उन्नीस तथा पैसे सत्तर मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक 03.01.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज [सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना जारी करने के बाद क्रेडिट्स, यदि कोई हो, को घटाकर] की राशि के लिए बैंक

ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक तथा गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का विवरण श्रीमती अंजुम जहाँ, पत्नी श्री फारूक अहमद के नाम में मोहल्ला कानून गोयां, सूफी अम्बा प्रसाद के मकान के निकट एवं चंदर प्रिटिंग प्रैस बिल्डिंग के निकट, मोरादाबाद में स्थित सम्पत्ति, क्षेत्रफल 62.37 वर्ग मीटर का इक्विटेबल मार्टगैज

उत्तरः अबचक मुकीर (मुश्तरका) वदाहू मकान मच्छी बाई पूर्वः सुभाष रस्तोगी का मकान

दक्षिणः रास्ता पश्चिमः 5 फीट चौड़ी गली

बैंक ऑफ इंडिया के लिये

तिथि: 12.7.2019 स्थानः मोरादाबाद

(राम गोपाल शर्मा) मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

धानका एग्राटक लामटड CIN:L24219DL1985PLC020126 पंजी. कार्यालयः 82, अभिनाश मेनशन, प्रथम तल, जोशी रोड, करोलबाग

नई दिल्ली-110005 (भारत), फोन: 011-2353 4551-52 कॉर्पोरेट कार्यालयः 14 तल, बिल्डिंग 5ए, साइबर सिटी, डीएलएफ फेस-॥, गुरूग्राम-122002, फोन: 0124-3838500, इ-मेल: investors@dhanuka.com, बेवसाइट: www.dhanuka.com

34वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट

ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को 10.30 पूर्वा. में ''डी इम्पेरिया होटल. 417. एम.जी. रोड, घिटोरनी, नई दिल्ली-110030 में आयोजित की जायेगी। कम्पनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 (जिसमें अन्य विषयों के साथ 34वीं एजीएम की सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये अंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल तथा सांविधिक अंकेक्षकों के रिपोर्ट शामिल हैं) का भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में प्रेषण 15 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया है। वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 कम्पनी की वेबसाईट (www.dhanuka.com) पर उपलब्ध है। अन्य विषयों के साथ 34वीं एजीएम की सुचना से शामिल वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) की वेबसाईट (www.cdslindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में भौतिक अथवा डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी की 34वीं एजीएम की सचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा एजीएम स्थल पर मत पत्र के माध्यम से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 8 अगस्त, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा रविवार, 11 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी जिसके बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग सेवा निष्क्रिय कर दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन वे एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

शेयरधारकों के मताधिकार (रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान अथवा सभा में मत पत्र द्वारा मतदान) की गणना सोमवार, 5 अगस्त, 2019 (''कट-ऑफ तिथि'') को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयर के अनुपात में की जाएगी। जिन सदस्यों का नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में मतदान, यदि कोई हो का संचालन करने के लिए मै. आर एंड डी कंपनी सेक्नेट्रीज को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतदान के परिणामों की घोषणा एजीएम की पूर्णता से 48 घंटे के भीतर की जाएगी तथा पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद वह कंपनी की वेबसाईट (www.dhanuka.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाईट (www.cdslindia.co.in) पर उपलब्ध होगी तथा उसकी जानकारी बीएसई लि. तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी दी जाएगी।

एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 से सोमवार, 12 अगस्त 2019 (दोनों दिवस सिहत) तक 34वें एजीएम तथा एजीएम में यदि घोषित होता है, अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.dhanuka.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के लिए

पीडीपी से मोहम्मद खलील ने इस्तीफा दिया

श्रीनगर, 17 जुलाई (भाषा)।

पीडीपी के संस्थापक सदस्य मोहम्मद खलील बंध ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि जब पार्टी के मूल और संस्थापक सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा हो तो ऐसे में पार्टी में बने रहना सही नहीं होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

तिथि: 18.7..2019

स्थानः नई दिल्ली

शाखाः नोएडा सेक्टर 27 ए-4, पीएस आर्केड, भोजा मार्केट, अट्टा, सेक्टर-27, नोएडा (उ.प्र.) 201301, ई-मेलः brmgr1201@mahabank.co.in/ bom1201@mahabank.co.in

एन्जेन प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U29100RJ2015PTC047680)

प्लॉट नं. 24, चंदन विहार कॉलोनी, सायपु रोड, धौलपुर, धोलपुर, राजस्थान-328001

स्वच्छता अभियान' की सफलता हेतु हम प्रतिबद्ध है

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से

गौरव महाजन- निदेशक

DIN: 07855466

Bank of Maharashtra एक परिवार एक बैंक

[नियम-8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.4.2017 जारी कर 1. मै. गौरीसुता बिल्डकॉन प्रा. लि. (ऋणधारक) 2. श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री किशोरी मोहन शर्मा (निदेशक/गारन्टर), 3. श्रीमती सुनीता कुमारी, पत्नी श्री सुनील कुमार (निदेशक/गारन्टर) 4. श्री निलय नितेश, पुत्र श्री उमापति सहाय (निदेशक/गारन्टर) तथा 5. श्रीमती तृप्ति शर्मा, पत्नी श्री निलय नितेश (निदेशक/गारन्टर) को सूचना की

प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,01,25,332/- (रुपए तीन करोड़ एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ बत्तीस मात्र)+ 15.4.2017 से दण्ड ब्याज सहित मासिक रेस्ट्स पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। (यह सूचना स्पीड डाक से भेजी गई।) ऋणधारक एवं गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी रखी तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

प्लॉट नं. 280, सेक्टर सिग्मा-02, ब्लॉक-सी, ग्रेटर नोएडा में श्रीमती तृप्ति शर्मा के नाम में मकान।

तिथि: 15.7.2019, स्थान: नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट



पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोची – 682015 दुरभाष : 0484 2501307, फैक्स : 0484 2370897, वेबसाइट : http://www.cochinshipyard.com CIN: L63032KL1972GOI002414

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 जुलाई 20 19 के एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यापार के प्रबंध हेतु कंपनी के सदस्यों की 47 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 2019 को पूर्वाहन 11 बजे 'द मर्सी होटल', एम.जी. रोड़, रविपुरम, कोची – 682015 में आयोजित की जाएगी।

कंपनी उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करेगी, जिनके नाम मंगलवार, दिनांक 06 अगस्त, 2019 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा तैयार शेयरधारकों/लाभार्थियों के रजिस्टर पर दिखाई देंगे। शेयरधारकों का रजिस्टर और कंपनी का शेयर ट्रान्स्फर बुक बुधवार, दिनांक 07 अगस्त, 2019 से मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) एजीएम के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का पता लगाने के उद्देश्य से बंद रहेगी।

सदस्यों की 47 वीं एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की उपस्थित पर्ची और प्रतिनिधि प्रपत्र सभी सदस्यों को स्पीड़ पोस्ट या पंजीकृत डाक या कुरियर व इलेक्ट्रॉनिक मोड़ द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है। इन दस्तावेजों का प्रेषण जुलाई 17, 2019 को पूरा हो चुका है और यह कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com और सीखिएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक मोड़ के माध्यम से मतदान

- सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), के माध्यम से अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई वोटिंग) सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सचना में उक्षिखित सभी व्यापारों / प्रस्तावों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रबंध किया जा सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि दिनांक 10 अगस्त, 2019 को पूर्वाहन 09.00 बजे शुरू होगी और दिनांक 12 अगस्त, 2019 अपराहन 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक दिनांक 06 अगस्त, 20 19 की कट-ऑफ तारीख पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्षीकृत रूप से शेयर धारण करने वाले अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।
- पर शेयरों को धारण करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या आरटीए के लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उनकी ई-मेल आईडी coimbatore@linkintime.co.in) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- से अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं, वे बैठक में शामिल हो सकते है, लेकिन बैठक में मतदान करने से निषद्ध है और यदि किया है तो बैठक में डाले गए वोट को अमान्य माना जाएगा। केवल वे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हितकारी मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि पर दर्ज किया गया है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल केलिए दिनांक 12 अगस्त, 2019 को 05.00 बजे के बाद अनुमित नहीं दी जाएगी और उसे सीडीएसएल द्वारा अक्षम किया जा
- रिमोट ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और www.evotingindia.com पर उपलब्ध
- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य, श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, मैराथन फ्यूच्यूरेक्स, 'ए' विंग, 25 वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग, लॉवर परेल, मुंबई – 400013, संपर्क सं – 1800225533, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क

वी कला

दिनांक: जुलाई 17, 2019

पत्रकार से बदसल्को मामले में चार पुलिसकर्मी निलंबित

मथुरा, 17 जुलाई (भाषा)।

जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक पत्रकार से अभद्रता व बुरी तरह से मारपीट करने के आरोप में संबंधित पुलिस चौकी के इंचार्ज सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रमुख ने प्रथम दृष्ट्या जांच परिणाम के आधार पर पुलिसकर्मियों को गैर जोन में स्थानांतरित किए जाने के लिए भी पुलिस मुख्यालय को संस्तृति भेजने का

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय अखबार के संवाददाता श्याम जोशी मंगलवार रात काम खत्म कर जब अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अड़ींग पुलिस चौकी क्षेत्र में सड़क पर जाम लगा देखकर पुलिसकर्मियों से बीच रास्ते में खड़ी जीप हटाने का निवेदन किया। इस पर पुलिसकर्मी उन पर रौब गांठने लगे। प्रतिवाद करने पर मारने-पीटने पर उतारू हो गए और थाने में ले जाकर बिठा दिया, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर पहले गोवर्धन के सामदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां स्थिति न संभलने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस घटना से जिले के पत्रकारों में रोष फैल गया और सभी ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने एसपी (देहात) आदित्य कुमार शुक्ला के नेतृत्व में उपाधीक्षक (गोवर्धन) विजय शंकर मिश्र, उपाधीक्षक (शहर) राकेश कुमार व अभिसूचना निरीक्षक केपी कौशिक की एक टीम जांच के लिए भेजकर तुरंत रिपोर्ट मंगवाई। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह व उपनिरीक्षक यशपाल सिंह, सिपाही धर्मेंद्र कुमार, रोहित कुमार के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके गैर जोन ट्रांसफर किए जाने को भी पत्र पुलिस महानिदेशक को प्रेषित करने के आदेश दिए हैं। बुधवार सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर पत्रकार को देखने जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जो भी गलत करेगा, वह अवश्य दंडित होगा।

रिश्तेदार के घर जाना दो भाइयों के लिए काल बन गया

मुंबई, 17 जुलाई (भाषा)

मुंबई के डोंगरी इलाके में जर्जर इमारत में रहने वाली एक महिला के घर जाना उनके दो रिश्तेदारों के लिए अंतिम यात्रा साबित हुई। इमारत के गिरने के बाद वे मलबे में फंस गए और फिर उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

के अंदर थे जब मंगलवार को इमारत ध्वस्त हो गई।

जब इमारत में रहने वाली महिला जीनत सलमानी (23) से मिलने जुबैर (25) और उसका भाई मुजम्मिल (13) आए, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। वे सलमानी के घर

हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सलमानी चमत्कारिक ढंग से बच गई।

कुलातपुझा में जंगल से पकड़ लिया गया। (U/o 5 Rule 20 CPC) IN THE COURT OF Kavita Yadav Additional Civil Judge (Senior Division) Bawal lext Date, Purpose of case, Orders and Judgments

> OM BALETC xecution petition under order 21 Rule

Judgment Debtor No. 4. Satish Kumar son of late

Judgment Debtor No. 6 Anita Devi All Residence Village Tankri ,Tehsil Bawal, Distric Whereas it has been proved to the satisfaction of the

Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against him/them and should appear personally or through their counsel o 13.08.2019 at 10:00 a.m. Take notice that in default of his/their appearance on th day before mentioned, the above said case will be hear and determined in his/their absence according to law.

Given under my hand and the seal of the Court, thi Additional Civil Judge (Senior Division

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुरक्षण में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है

दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30(5)(क) के विषय में

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

न्द्र सरकार कॉरपोरेट मंत्रालय

विजिटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 353, (352/53) भूतल, गली प्रैंस वाली, छापा खाना सदर बाजार, दिल्ली-110006 में स्थित है, के ...याचिकाकर्ता

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा 17 जुलाई, 2019 को सम्पन् इसकी असाधारण सामान्य बैठक में इसक पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" सीम ं स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के नियमें के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तृत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी वे पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित वे स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा अथवा निदेशक शिकायत पत्र कोंरपोरेट मामलों के मंत्रालय—21 की वेबसाइट (www.mca.gov.in) द्वारा समर्पित अपनी आपत्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचन के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके ऊपर दिए पते पर रिथत पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए। कृते विजिटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 17/07/2019 (निदेशक) स्थान : दिल्ली (डीआईएन: 00422417

हस्ता./ वरुण जैन

स्थान : कोच्ची

222

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 20 के साथ पढ़ित, कंपनी केंद्रीय निक्षेपागार

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सूचना भेजने के बाद शेयर हासिल कर लिए हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं और दिनांक 06 अगस्त 2019 की कट-ऑफ तारीख

इलेक्ट्रोनिक मोड़ या बालैट के द्वारा मतदान की सुविधा भी एजीएम हॉल में उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी सदस्य जो पहले से ही रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम

ई-वोर्टिग उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते है।

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ह/-

नई दिल्ली

स्थानः गुरुग्राम

तिथि: 17.7.2019

ज्योति वर्मा कंपनी सचिव/अनुपालन अधिकारी

एफसीएस- 7210

कंपनी सचिव